



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 7, 1981/फाल्गुन 16, 1902
No. 84] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7, 1981/PHALGUNA 16, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1981

आ.का.वि० 173(ब) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और 13 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) में प्रकाशित क्षेत्र प्रचार निदेशानुसूची, क्षेत्र प्रचार अधिकारी (सीमा) भर्ती नियम, 1980, संख्या सा० आ.वि० 1284, दिनांक 28 दिसम्बर, 1980 का, उन बातों के सिवाए जिन्हें किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, अविश्रुत करने हुए, क्षेत्र प्रचार निदेशालय में क्षेत्र प्रचार अधिकारी (सीमा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्र प्रचार निदेशालय, क्षेत्र प्रचार अधिकारी (सीमा) भर्ती नियम, 1981 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, और उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपायुक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हताएं :— वह व्यक्ति,—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसा व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को नाग्य स्वीय विधि के अधीन अनुश्रेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा रंग लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किन्हीं बर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की जाबान, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:— इन नियमों की कोई भी बात ऐसे धारणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करने में अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सोझे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनु-सेय है या नहीं	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए भौतिक और अन्य महत्ताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी (सीमा)	77	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित अतिरिक्त वर्गीय	650-30-740- 35-810-४०० 35-880-40- 1000-४००० 40-1200 ४०	नागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी : आयु सीमा अवकाश-रित करने के लिए निम्नलिखित तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य। (2) कुछ सीमा क्षेत्रों तथा किसी सीमा क्षेत्र में विद्यमान मुख्य बोलियों या भाषाओं में से कम से कम एक का ज्ञान। (3) किसी सरकारी विभाग या समाचारपत्र/ समा-चार एजेंसी या किसी व्यापारिक वाणिज्यिक समुदाय में पत्रकारिता, प्रचार या लोक संपर्क कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पणी—1 : महत्ताएं, अवस्था सुप्रसिद्ध अभ्यर्थियों के मामले में, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी—2 : अनुभव संबंधी महत्ता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों सकेंगे।

1	2	3	4	5	6	7
						<p>बाल्कनीय :</p> <p>(1) किसी माध्यम प्राप्ति विषयविद्यालय/संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा।</p> <p>(2) आवश्यक अर्हताओं की प्रविष्टि (2) द्वारा कवर की गई क्षेत्रीय भाषा से भिन्न किसी एक क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता।</p> <p>(3) भाषण देने, सेमिनारों आदि में भाग लेने का अनुभव।</p>
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रो-पसि की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा तथा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन्हें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय, प्रोन्नति भर्ती करने में किन मर्यादाएं हैं तो उनकी संरचना परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती करते समय तथा इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	

[फाइल संख्या ए० 42013/1/77-सी०आई०एस०]

जे० के० बट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 1981

G.S.R. 173(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Field Publicity, Field Publicity Officer (Border) Recruitment Rules, 1980, No. G.S.R. 1284 dated the 28th November, 1980, published in the Gazette of India, Part II section 3, sub-section (i) dated the 13th December, 1980 except as respects things done or omitted to be done, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Field Publicity Officer (Border) in the Directorate of Field Publicity, namely:—

1 Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Field Publicity, Field Publicity Officer (Border) Recruitment Rules, 1981;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number and classification of posts and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed thereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

- who has entered into, or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes

and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)(a)	(7)
Field Publicity Officer (Border)	77	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 650-30-740 35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government Servants). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	No	Essential : (i) A degree of a recognised University or equivalent; (ii) Knowledge of some of the border areas and of atleast one of the major dialects or languages prevailing in any border area; (iii) 3 years experience of journalistic, publicity or public relations work in a Government or in a newspaper/news agency or a commercial concern of repute. Note 1:—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 :—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from the communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Diploma in Journalism from a recognised University/Institution. (ii) Proficiency in a regional language other than that covered by the entry (ii) of the essential qualifications. (iii) Experience of public speaking, participation in seminars etc.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Union Public Service Commission shall be consulted while making direct recruitment and for amending or relaxing any of the provisions of these rules.

[F. No. A. 42013/1/77-CIS]

J. K. BHATTACHRYA, Jt. Secy.

